



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 369] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 1978/श्रावण 10, 1900
No. 369] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 1978/SRAVANA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1978

क्र. आ. 481.—केंद्रीय सरकार, ग्रेशम एण्ड कौन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड
(उपक्रमों का अर्जन और अन्तर्गण) अधिनियम, 1977 (1977 का 42) की धारा 7 की
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवृत्ति करती है कि
मैसर्स ग्रेशम एण्ड कौन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के उपक्रम, और उसके
उपक्रमों के संबंध में उक्त कंपनी के ऐसे अधिकार, हक और हित, जो उक्त अधि-
नियम की धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में और तत्पश्चात् उक्त अधिनियम

की धारा 6 के अधीन ग्रेशम एण्ड क्रावेन लिमिटेड में निहित हो गए हैं, ग्रेशम एण्ड क्रावेन लिमिटेड में निहित बने रहने की बजाए 1 अगस्त, 1978 से यह भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वज लिमिटेड नामक सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे।

[सं. 2(26)/78-एच. एम.-3]

आर. कृष्णास्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 1978

S.O. 481.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Gresham and Craven of India (Private) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1977 (42 of 1977), the Central Government hereby directs that the undertakings of Messrs Gresham and Craven of India (Private) Limited, and the right title and interest of the said Company in relation to its undertakings, which have vested in the Central Government, under section 3 of the said Act and subsequently in Braithwaite and Company Limited under section 6 of the said Act, shall, instead of continuing to vest in Braithwaite and Company Limited, vest in the Government company known as 'The Bharat Brakes and Valves Limited' with effect from the 1st day of August, 1978.

[No. 2(26)/78-HM-III]

R. KRISHNASWAMY, Jt. Secy.